

पत्रांक - 2218/240/2500/अवकाश/2018-19 दि. 15.4.2018






सुगम कार्यालयावार स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण अपर सांख्यिकी अधिकारी

क्र० सं०	जनपद का नाम	सुगम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	अभ्युक्ति
1	अल्मोड़ा	सुगम	01	-	01	
2	बागेश्वर	सुगम	01	01	-	
3	चम्पावत	सुगम	01	-	01	
4	पिथौरागढ़	सुगम	01	-	01	
5	नैनीताल	सुगम	02	02	-	
6	उत्तरकाशी	सुगम	01	-	01	
7	पौड़ी	सुगम	01	-	01	
8	रुद्रप्रयाग	सुगम	01	-	01	
9	देहरादून	सुगम	02	01	01	01 कर्मचारी जलागम में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।
10	कृषि निदेशालय	सुगम	08	02	06	
11	राजस्व परिषद्, देहरादून	सुगम	04	02	02	
12	हरिद्वार	सुगम	02	01	01	
13	उधमसिंह नगर	सुगम	02	02	-	
14	संयुक्त कृषि निदेशक, हल्द्वानी	सुगम	01	01	-	
15	स०कृ०प०एवंप्र०केन्द्र, हल्द्वानी	सुगम	01	01	-	
योग-			29	13	16	



दुर्गम कार्यालयावार स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण अपर सांख्यिकी अधिकारी

क्र० सं०	जनपद का नाम	दुर्गम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	अभ्युक्ति
1	टिहरी	दुर्गम	01	01	-	
2	चमोली	दुर्गम	01	01	-	
3	अपर कृषि निदेशक, पौड़ी	दुर्गम	01	-	01	
योग-			03	02	01	

अपर सांख्यिकी अधिकारी, वर्ग-1 के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पद तथा दुर्गम-सुगम में तैनात कार्मिक, स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिक एवं सुगम-दुर्गम में रिक्त पदों का विवरण

क्र० सं०	निदेशालय/ मण्डल/ जनपद स्तर के पदनाम	पदों का विवरण					सुगम में तैनात कार्मिकों की संख्या	दुर्गम में तैनात कार्मिकों की संख्या	दुर्गम के लिये पात्र कार्मिक	दुर्गम में रिक्त पद			सुगम के लिये पात्र कार्मिक	सुगम में रिक्त पद			अभ्युक्ति
		कुल स्वी० पद	कार्यरत	रिक्त पद						वर्तमान में रिक्त	सम्भावित रिक्तियां	योग		वर्तमान में रिक्त	सम्भावित रिक्तियां	योग	
				प्रतिनियुक्ति पर	वास्तविक रिक्त	कुल रिक्त											
1	अपर सांख्यिकी अधिकारी, वर्ग-1	32	15	01	16	17	11	03	05	-	02	02	02	17	05	22	1 कर्मचारी जलागम में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।
योग		32	15	01	01	17	11	03	05	-	02	02	02	17	05	22	



(मधु बन्दूनी)
प्रधान सहायक


(दिनेश चौरसी)
मु०प्र०अ०


(डॉ० डी०के०सिंह)
ज०कृ०नि० (विपणन)


(डॉ० ए०के०वर्मा)
ज०कृ०नि० मा०सं०


(के०सी०पाठक)
अपर कृषि निदेशक


(गीरी शंकर)
कृषि निदेशक

अपर सांख्यिकी अधिकारी, वर्ग-1 के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में तैनात कार्मिक तथा सुगम एवं दुर्गम में तैनात अवधि का विवरण

क्र०	कर्मचारी का नाम	पिता/पति का नाम	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती कार्यालय	जनपदीय कार्यालय	वर्तमान कार्यालय में तैनाती (कम से कम तक) कुल अवधि	वर्तमान कार्यालय में तैनाती कुल अवधि	वर्तमान कार्यालय का प्रकार सुगम / दुर्गम	कुल दुर्गम अवधि	कुल सुगम अवधि	जन्मतिथि	सेवा विवृति की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	श्री पून चन्द्र बड़विलिया	श्री नारायण दत्त	नैनीताल	जिलाधिकारी, बागेश्वर	बागेश्वर	28.01.2005 से वर्तमान	13 वर्ष 4 माह 3 दिन	दुर्गम	31 वर्ष 11 माह 30 दिन		30.06.1963	30.08.2023
2	श्री विनोद किसान	श्री रामोद प्रसाद	नैनीताल	जिलाधिकारी, नैनीताल	नैनीताल	1.11.09 से वर्तमान तक	8 वर्ष 8 माह 30 दिन	सुगम		28 वर्ष 11 माह 18 दिन	15.02.1968	30.08.2028
3	श्री चन्द्र सिंह अधिकारी	श्री जय सिंह अधिकारी	अल्मोड़ा	जिलाधिकारी, नैनीताल	नैनीताल	1.8.09 से वर्तमान तक	8 वर्ष 9 माह 30 दिन	सुगम		28 वर्ष 11 माह 15 दिन	12.06.1960	30.08.2020
4	श्री शक्तिभूषण उनियाल	श्री आरपी० उनियाल	टिहरी	जिलाधिकारी,	टिहरी	5.8.17 से वर्तमान	0 वर्ष 9 माह 25 दिन	दुर्गम	27 वर्ष 3 माह 11 दिन	4 वर्ष 4 माह 30 दिन	30.08.1965	30.08.2025
5	श्री शुभ चन्द्र बिष्ट	श्री रघु सिंह बिष्ट	चमोली	जिलाधिकारी,	चमोली	22.12.12 से वर्तमान	05 वर्ष 05 माह 09 दिन	दुर्गम	24 वर्ष 7 माह 17 दिन	7 वर्ष 1 माह 2 दिन	01.09.1960	31.08.2020
6	श्री संतोष कुमार ध्यानी	श्री वेणु० ध्यानी	पौड़ी	जिलाधिकारी, हरिद्वार	हरिद्वार	1.8.06 से वर्तमान	11 वर्ष 8 माह 30 दिन	सुगम	15 वर्ष 0 माह 2 दिन	18 वर्ष 9 माह 10 दिन	11.10.1963	31.10.2023
7	श्री प्रभाष चन्द्र मण्डल	श्री विनोद विहारी मण्डल	ऊँसिंगनगर	जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर	उधमसिंहनगर	19.7.09 से वर्तमान	8 वर्ष 10 माह 12 दिन	सुगम		31 वर्ष 03 माह 15 दिन	02.01.1960	31.01.2020
8	श्री यतीश पन्त	श्री आनन्द वल्लभ पन्त	नैनीताल	जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर	उधमसिंहनगर	21.7.12 से वर्तमान	5 वर्ष 10 माह 10 दिन	सुगम	15 वर्ष 1 माह 3 दिन	18 वर्ष 10 माह 28 दिन	15.08.1961	30.08.2021
9	श्री दयाकिशन काण्डपाल	श्री केशव दत्त काण्डपाल	अल्मोड़ा	सं०००००० हल्द्वानी	नैनीताल	14.2.13 से वर्तमान तक	5 वर्ष 3 माह 18 दिन	सुगम		28 वर्ष 11 माह 15 दिन	12.02.1963	28.02.2023
10	श्री प्रदीप चन्द्र जोशी	श्री हरी दत्त जोशी	नैनीताल	सं०००००००० हल्द्वानी	नैनीताल	12.12.2013 से वर्तमान	4 वर्ष 5 माह 19 दिन	सुगम		28 वर्ष 5 माह 30 दिन	01.07.1965	30.08.2025
11	श्री रामेश्वर प्रसाद सेमवाल	श्री लच्छी राम	उत्तरकाशी	कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड	देहरादून	1.8.04 से वर्तमान	13 वर्ष 08 माह 30 दिन	सुगम	18 वर्ष 09 माह 28 दिन	13 वर्ष 09 माह 30 दिन	08.12.1962	31.12.2022
12	श्री बृजमोहन शर्मा	श्री जी०एन० शर्मा	चमोली	कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड	देहरादून	1.8.08 से वर्तमान	8 वर्ष 9 माह 30 दिन	सुगम	23 वर्ष 04 माह 07 दिन	8 वर्ष 09 माह 29 दिन	09.08.1963	30.08.2023
13	श्री भरत सिंह मण्डारी	श्री आनन्द सिंह मण्डारी	पौड़ी	राजस्व परिषद, देहरादून	देहरादून	20.07.2009 से वर्तमान	8 वर्ष 10 माह 11 दिन	सुगम	04 वर्ष 6 माह 13 दिन	28 वर्ष 09 माह 04 दिन	10.11.1964	30.11.2024
14	श्री राजेश कुमार पाण्डेय	श्री पीताम्बर दत्त पाण्डेय	चमोली	राजस्व परिषद, देहरादून	देहरादून	1.9.14 से वर्तमान	3 वर्ष 8 माह 30 दिन	सुगम	19 वर्ष 11 माह 15 दिन	11 वर्ष 9 माह 12 दिन	02.02.1964	28.02.2024
15	श्री विवेकानन्द काला											

जलाम में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत

स्वीकृत पद-32

कार्यरत पद-15

रिक्त पद-17

अपर सांख्यिकी अधिकारी, वर्ग-1 सुगम में तैनात कार्मिकों की कार्य अवधि के आधार पर अवरोधी कम में सूची

क्र०	कार्मिकों का नाम	पिता/पति का नाम	गृह अवस्था	वर्तमान तैनाती कार्यालय	पुनर्वासी कार्यालय	वर्तमान कार्यालय में तैनाती (अथवा सेवानिवृत्त) की अवधि	वर्तमान कार्यालय में तैनाती की कुल अवधि	कार्यालय कार्यालय का प्रकार सुगम / दुर्गम	कुल दुर्गम अवधि	कुल सुगम अवधि	जन्मतिथि	सेवा नियुक्ति की तिथि	स्वानुसंग हुए विधिकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	श्री प्रभाष चन्द्र मधुसूदन	श्री विनोद विहारी मधुसूदन	अशुभ	जिलाधिकारी, उदयपुर	अशुभ	18.7.08 से वर्तमान तक	8 वर्ष 10 माह 12 दिन	सुगम		21 वर्ष 03 माह 15 दिन	02.01.1960	31.01.2020	धारा-3 (ब) के अन्तर्गत वरिष्ठ कार्मिक
2	श्री विनोद शिवराज	श्री रामोदर प्रसाद	तैनात	जिलाधिकारी, नैनीताल	नैनीताल	1.11.09 से वर्तमान तक	8 वर्ष 6 माह 30 दिन	सुगम		28 वर्ष 11 माह 18 दिन	15.02.1960	30.06.2028	दुर्गम के लिए पात्र
3	श्री देवाशिवान कश्यप	श्री केशव दत्त कश्यप	अन्यथा	संयुक्त जिलाधिकारी	नैनीताल	14.2.13 से वर्तमान तक	5 वर्ष 3 माह 18 दिन	सुगम		28 वर्ष 11 माह 16 दिन	12.02.1963	28.02.2023	धारा-3 (ब) के अन्तर्गत वरिष्ठ कार्मिक
4	श्री चन्दन सिंह अधिकारी	श्री उदय सिंह अधिकारी	अन्यथा	जिलाधिकारी, नैनीताल	नैनीताल	1.8.08 से वर्तमान तक	8 वर्ष 9 माह 30 दिन	सुगम		28 वर्ष 11 माह 15 दिन	12.06.1960	30.06.2020	धारा-3 (ब) के अन्तर्गत वरिष्ठ कार्मिक
5	श्री प्रदीप चन्द्र जोशी	श्री इरि दत्त जोशी	नैनीताल	संयुक्त जिलाधिकारी	नैनीताल	12.12.2013 से वर्तमान तक	4 वर्ष 5 माह 19 दिन	सुगम		28 वर्ष 5 माह 20 दिन	01.07.1965	30.06.2025	दुर्गम के लिए पात्र
6	श्री सरप सिंह मण्डवी	श्री आनन्द सिंह मण्डवी	पौड़ी	राजस्व परिषद, देहरादून	देहरादून	20.07.2009 से वर्तमान तक	8 वर्ष 10 माह 11 दिन	सुगम	04 वर्ष 6 माह 19 दिन	26 वर्ष 09 माह 04 दिन	10.11.1964	30.11.2024	दुर्गम के लिए पात्र
7	श्री यशोधर पन्त	श्री आनन्द कल्याण पन्त	नैनीताल	जिलाधिकारी, उदयपुर	अशुभ	21.7.12 से वर्तमान तक	5 वर्ष 10 माह 10 दिन	सुगम	15 वर्ष 1 माह 3 दिन	16 वर्ष 10 माह 28 दिन	15.06.1961	30.06.2021	धारा-3 (ब) के अन्तर्गत वरिष्ठ कार्मिक
8	श्री सतोष सुन्दर ध्यानी	श्री केशवी ध्यानी	पौड़ी	जिलाधिकारी, हरिद्वार	हरिद्वार	1.8.08 से वर्तमान तक	11 वर्ष 8 माह 30 दिन	सुगम	15 वर्ष 0 माह 2 दिन	16 वर्ष 9 माह 10 दिन	01.09.1960	31.10.2020	धारा-3 (ब) के अन्तर्गत वरिष्ठ कार्मिक
9	श्री शम्भुवर प्रसाद सेनगल	श्री लक्ष्मी शम्भु	उत्तरकाशी	कृषि निदेशालय, उत्तरकाशी	देहरादून	1.8.04 से वर्तमान तक	13 वर्ष 08 माह 29 दिन	सुगम	18 वर्ष 09 माह 28 दिन	13 वर्ष 09 माह 30 दिन	06.12.1962	31.12.2022	धारा-3 (ब) के अन्तर्गत वरिष्ठ कार्मिक
10	श्री शशिधर कुमार पाण्डेय	श्री मीनाराम दत्त पाण्डेय	बनारस	राजस्व परिषद, देहरादून	देहरादून	1.8.14 से वर्तमान तक	3 वर्ष 8 माह 20 दिन	सुगम	19 वर्ष 11 माह 15 दिन	11 वर्ष 9 माह 12 दिन	02.02.1964	28.02.2024	दुर्गम के लिए पात्र
11	श्री सुजयोधन शर्मा	श्री जीएन शर्मा	बनारस	कृषि निदेशालय, उत्तरकाशी	देहरादून	1.8.08 से वर्तमान तक	8 वर्ष 9 माह 30 दिन	सुगम	23 वर्ष 04 माह 07 दिन	8 वर्ष 08 माह 29 दिन	09.08.1963	30.09.2023	एक ही कार्यलय में 8 वर्ष की अवधि होने पर

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

अपर सांख्यिकी अधिकारी, वर्ग-1 दुर्गम में तैनात कार्मिकों की कार्य अवधि के आधार पर अवरोधी क्रम में सूची

क्र.सं०	कर्मचारी का नाम	पिता/पति का नाम	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती कार्यालय	जनपदीय कार्यालय	वर्तमान कार्यालय में तैनाती (कम से कम तक) कुल अवधि	वर्तमान कार्यालय में तैनाती कुल अवधि	वर्तमान कार्यालय का प्रकार सुगम / दुर्गम	कुल दुर्गम अवधि	कुल सुगम अवधि	जन्मतिथि	सेवा नियुक्ति की तिथि	स्थानान्तरण हेतु विशिष्टकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	श्री भूरा चन्द्र इंदुशिलिया	श्री नारायण दत्त	तैनीताल	जिलाधिकारी, बागेश्वर	बागेश्वर	28.01.05 से वर्तमान	13 वर्ष 4 माह 3 दिन	दुर्गम	31 वर्ष 11 माह 30 दिन		30.06.1963	30.06.2023	सुगम के लिए पात्र
2	श्री शशिमूर्धन चनियाल	श्री आशुपीठ चनियाल	टिहरी	जिलाधिकारी, टिहरी	टिहरी	5.8.17 से वर्तमान	0 वर्ष 9 माह 25 दिन	दुर्गम	27 वर्ष 3 माह 11 दिन	4 वर्ष 4 माह 30 दिन	30.06.1965	30.06.2025	सुगम के लिए पात्र
3	श्री भुवन चन्द्र बिष्ट	श्री रतन सिंह बिष्ट	चमोली	जिलाधिकारी, चमोली	धमोली	22.12.12 से वर्तमान	05 वर्ष 05 माह 09 दिन	दुर्गम	24 वर्ष 7 माह 17 दिन	7 वर्ष 1 माह 2 दिन	01.09.1960	31.08.2020	सुगम के लिए पात्र







सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र कार्मिकों की सूची - (धारा-9) अनुसार अपर सांख्यिकी अधिकारी, वर्ग-1

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती अधिष्ठान/स्थल	सुगम में कुल तैनाती अवधि	सुगम में रिक्तियों का विवरण				अभियुक्ति
						वर्तमान रिक्तियाँ		सम्भावित रिक्ति		
						कुल संख्या	स्थल	कुल संख्या	स्थल	
1	श्री विनोद किरवाण	अ०सा०अ०	नैनीताल	जिलाधिकारी, नैनीताल	28 वर्ष 11 माह 18 दिन	17	जिलाधिकारी, अल्मोड़ा	05	जिलाधिकारी, नैनीताल	11
2	श्री प्रदीप चन्द्र जोशी	अ०सा०अ०	नैनीताल	स०कृ०प्र०केन्द्र, हल्द्वानी	28 वर्ष 05 माह 30 दिन		जिलाधिकारी, पिथौरागढ़		स०कृ०प्र०केन्द्र, हल्द्वानी	
3	श्री भरत सिंह भण्डारी	अ०सा०अ०	पौड़ी	राजस्व परिषद, देहरादून।	26 वर्ष 09 माह 04 दिन		जिलाधिकारी, चम्पावत		राजस्व परिषद, देहरादून।	
4	श्री राजेश कुमार पाण्डेय	अ०सा०अ०	चमोली	राजस्व परिषद, देहरादून।	11 वर्ष 09 माह 12 दिन		जिलाधिकारी, उत्तरकाशी		कृषि निदेशालय, देहरादून	
5	श्री वृजमोहन शर्मा	अ०सा०अ०	चमोली	कृषि निदेशालय, देहरादून	08 वर्ष 09 माह 29 दिन		जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग,			
							जिलाधिकारी, पौड़ी			
							जिलाधिकारी, देहरादून			
							जिलाधिकारी, हरिद्वार			
							कृषि निदेशालय			
							राजस्व परिषद, देहरादून			
							अपर कृषि निदेशक, पौड़ी			

(मधु बन्दूनी)
प्रधान सहायक

(दिनेश जोशी)
मु०प्र०अ०

(डॉ० डी०के०सिंह)
उ०कृ०नि० (विपणन)

(डॉ० श०के०वर्मा)
उ०कृ०नि० मा०सा०

(के०सी०पाठक)
अपर कृषि निदेशक

(गौरी शंकर)
कृषि निदेशक

अपर सांख्यिकी अधिकारी, वर्ग-1 के दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के लिए पात्र कार्मिकों की सूची - (धारा-10)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती अधिष्ठान/स्थल	दुर्गम में कुल तैनाती अवधि	दुर्गम में रिक्तियों का विवरण				अभियुक्ति
						वर्तमान रिक्तियाँ		सम्भावित रिक्ति		
						कुल संख्या	स्थल	कुल संख्या	स्थल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	श्री पूरन चन्द्र बड़सिलिया	अ०सा०अ०	नैनीताल	जिलाधिकारी, बागेश्वर	31 वर्ष 11 माह 30 दिन	शून्य	शून्य	2	जिलाधिकारी, बागेश्वर	
2	श्री शशिभूषण उनियाल	अ०सा०अ०	टिहरी	जिलाधिकारी, टिहरी	27 वर्ष 03 माह 11 दिन				जिलाधिकारी, टिहरी	



(मधु बन्दूनी)
प्रधान सहायक


(दिनेश जोशी)
मु०प्र०अ०


(डॉ० डी०के०सिंह)
उ०कृ०नि० (विपणन)


(डॉ० प्र०के०वर्मा)
उ०कृ०नि० मा०सं०


(के०सी०पाठक)
अपर कृषि निदेशक


(गौरी शंकर)
कृषि निदेशक